



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
The International Bank

DEVTA PROJECT BUILDERS

GOLA GHAT
BUXAR
802101
INDIA

खाता क्र./ FD A/c No 31200300020475
सूचना क्र./ FD Advice No FDR0710223838
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No EPZ002729
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 312002003007224
शाखा का नाम/Branch Name BUXAR BIHAR

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination N
नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.
पैन नंबर / PAN No. AAFFD6832N
परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है)
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked Y

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
300000	07-10-2022	5.50	12 Months & Days	07-10-2023	316843

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

- व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।
- स्वतः नवीकरण क्लॉज :
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों त. 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.
- फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं।
- निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.
- फॉर्म एच कंपल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.
- परिपक्वता आहरण क्लॉज :
i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1% कम.
ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।
- Rate of Interest is in percentage per annum.
- Automatic Renewal Clause :
i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
- Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
- A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
- Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
- Premature Withdrawal Clause :
i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract the penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Redeemed in favour of EE RWD WORKS Division
Buxar





बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pladge in favour of E.E.R.W.D works Div. Buxar

जमा पुष्टि सूचना / Deposit



DEVTA PROJECT BUILDERS	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	31200300020484
GOLA GHAT	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1010222305
BUXAR	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	EPZ002729
802101	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	31200200007224
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	BUXAR BIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD6832N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
250000	10-10-2022	5.50	12 Months 0 Days	10-10-2023	264036

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम। ii). करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम। करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pladge in favour of E.E R.W.D works Div. Buxar

जमा राशि सूचना / Deposit Certificate



DEVTA PROJECT BUILDERS	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	31200300020485
GOLA GHAT	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1010222324
BUXAR	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	EPZ002729
802101	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	31200200007224
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	BUXAR BIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD6832N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
250000	10-10-2022	5.50	12 Months 0 Days	10-10-2023	264036

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काउंट रेट से 1% कम। ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काउंट रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर

पत्रांक-107..... बक्सर/दिनांक- 24-11-23

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
बैंक ऑफ बड़ौदा
बक्सर।

विषय :- F.D.R. का सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के संवेदक द्वारा आपके बैंक से निम्न F.D.R. जमानत की राशि के रूप में निर्गत किया गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	संवेदक का नाम	F.D. की संख्या	F.D. की राशि	निर्गत करने की तिथि
1	मेसर्स देवता प्रोजेक्ट बिल्डर्स	31200300020485	250000.00	10.10.2022
2	मेसर्स देवता प्रोजेक्ट बिल्डर्स	31200300020484	250000.00	10.10.2022
3	मेसर्स देवता प्रोजेक्ट बिल्डर्स	31200300019381	250000.00	23.03.2022
4	मेसर्स देवता प्रोजेक्ट बिल्डर्स	31200300020475	300000.00	07.10.2022
5	मेसर्स देवता प्रोजेक्ट बिल्डर्स	31200300020476	350000.00	07.10.2022

एवं इसकी पुष्टि की जाय कि संवेदक के इस F.D. को जप्त करने की स्थिति में क्या इसके निमित्त राशि को कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बक्सर आपसे सीधे चेक या डी0डी0 प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं ?

अनु०:- यथोक्त।

Chetel P. Singh



विश्वासभाजन

24.11.23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर
24/11/23



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank



Pledge in favour of CC RWD Works Division BUXAR

जमा प्रति सूचना / Deposit Confirmation Advice

DEVTA PROJECT BUILDERS

GOLA GHAT
BUXAR
802101
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No

31200300019381

सावधि सूचना क्र./ FD Advice No

FDR2303224512

कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No

EPZ002729

व्यवहार खाता / Linked Operative a/c

31200200007224

शाखा का नाम/Branch Name

BUXAR BIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination	N
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	
पैन नंबर / PAN No.	AAFFD6832N
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लियन चिह्नित / Lien Marked	Y

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
250000	23-03-2022	5.00	12 Months 0 Days	23-03-2023	262736

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :	2. Automatic Renewal Clause :
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं.	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :	6. Premature Withdrawal Clause :
i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके फाई रेट से 1% कम.	i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii). 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके फाई रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

समय प्रति पुरस्कार Deposit Confirmation Advice

DEVTA PROJECT BUILDERS

GOLA GHAT
BUXAR
802101
INDIA

सावधि खाता नं./ FD A/c No 31200300020476
सावधि सूचना नं./ FD Advice No FDR0710223829
कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No EPZ002729
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 31200200007224
शाखा का नाम/Branch Name BUXAR BIHAR

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)
नामांकन / Nomination N
नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.
पैन नंबर / PAN No. AAFFD6832N
परिचालन पद्धति / Mode of
Operation SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

नियन चिह्नित / Lien Marked Y

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
350000	07-10-2022	5.50	12 Months 0 Days	07-10-2023	369651

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है.

2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :

i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.

ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.

3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है.

4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए. अन्यथा बोनस पर कर कटौती की जाएगी.

5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.

6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :

i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1% कम.

ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.

1. Rate of Interest is in percentage per annum.

2. Automatic Renewal Clause :

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)

6. Premature Withdrawal Clause :

i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.

ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledged in Favour of E.E. Ravi works Div.
Buxar



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर

पत्रांक- 108 बक्सर/दिनांक- 24/01/23

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर।

सेवा में,

पोस्टमास्टर
गजाधर गंज, बक्सर।

विषय :- NSC प्रतिज्ञिप्ती का सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स देवता प्रोजेक्ट बिल्डर्स प्रा० महेश पाण्डेय, गोला घाट, बक्सर द्वारा इस प्रमंडल के निविदा में अग्रधन के रूप में 420000.00 (चार लाख बीस हजार) का NSC जो कि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त है जमा किये है जिसका विवरणी निम्न प्रकार है।

Sl. No.	NSC No.	Reg. No.	Date	Nos	Amount
1	43EF 501305	1500	14.11.2014	10000.00 x 1	10000.00
2	43EF 501306	1501	14.11.2014	10000.00 x 1	10000.00
3	43EF 501330	1505	14.11.2014	10000.00 x 1	10000.00
4	43EF 501331 to 35	1506	14.11.2014	10000.00 x 5	50000.00
5	43EF 501336 to 40	1507	14.11.2014	10000.00 x 5	50000.00
6	43EF 501341 to 45	1508	14.11.2014	10000.00 x 5	50000.00
7	43EF 501346 to 47	1509	14.11.2014	10000.00 x 2	20000.00
8	43EF 501352 to 55	1510	14.11.2014	10000.00 x 4	40000.00
9	43EF 501356 to 60	1511	14.11.2014	10000.00 x 5	50000.00
10	43EF 501361	1512	14.11.2014	10000.00 x 1	10000.00
11	43EF 501363 to 64	1512	14.11.2014	10000.00 x 2	20000.00
12	43EF 501349 to 50	1509	14.11.2014	10000.00 x 2	20000.00
13	43EF 501396 to 398	1521	14.11.2014	10000.00 x 3	30000.00
14	43EF 501399 to 400	1522	14.11.2014	10000.00 x 2	20000.00
15	43EF 858241 to 43	1373	14.11.2014	10000.00 x 3	30000.00
			Total-		420000.00

अनुरोध है कि कृपया यह सत्यापन किया जाय कि उपरोक्त NSC आपके पोस्ट ऑफिस द्वारा निर्गत है एवं विधिवत प्रतिज्ञिप्त किया गया है या नहीं ?

24/01/23
POSTMASTER
Buxar

विश्वासभाजन

24.01.23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बक्सर
24/01/23